



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 22, 1982/चैत्र 1, 1904
No. 88] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22, 1982/CHAITRA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1982

अधिसूचना

सांकां० 261(अ) —यतः वायुयान नियम, 1937 में और प्रागे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के प्राप्ति को भारत राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 19 दिसम्बर, 1981 के पृष्ठ 2743-44 पर भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सांकां० 1140 दिनांक 16 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उनसे संभवतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन महीने की अवधि समाप्त होने से पहले-यहलें आशेष तथा सुझाव प्राप्त किए गए थे,

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 19 दिसम्बर, 1981 को उपलब्ध करा दिया गया था,

और यतः जनता से प्राप्त आशेषों तथा सुझावों पर विचार कर लिया गया है,

अतः, अब, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा वायुयान नियम, 1937 में और प्रागे संशोधन करने के लिए निम्न-लिखित नियम बनाती है अर्थात्:

1. (1) ये नियम वायुयान (अवम संशोधन) नियम, 1982 कहे जा सकेंगे।

(2) वे 1 अप्रैल, 1982 से लागू होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में अनुसूची में, खंड "ख" में पैरा 1 के अंतर्गत उप-पैरा के "अवतरण प्रभार" के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1. अवतरण प्रभार वायुयान का कुल भार (I) अंतरराष्ट्रीय उड़ानें	एक अवतरण के लिए अवतरण प्रभार
10,000 किलोग्राम से अधिक	18.50 रुपये प्रति 1000 किलोग्राम
10,000 किलोग्राम से अधिक परंतु 20,000 किलोग्राम से अधिक]	185.00 रुपये व 10,000 किलो- ग्राम से अधिक भार के लिए प्रति 1,000 किलोग्राम के लिए 27.80 रुपये
20,000 किलोग्राम से अधिक परंतु 50,000 किलोग्राम से अधिक	463.00 रुपये व 20,000 किलो- ग्राम से अधिक भार के लिए प्रति 1,000 किलोग्राम के लिए 55.55 रुपये
50,000 किलोग्राम से अधिक परंतु 1,00,000 किलोग्राम से अधिक	2129.50 रुपये व 50,000 किलोग्राम से अधिक भार के लिए प्रति 1,000 किलोग्राम के लिए 64.80 रुपये
1,00,000 किलोग्राम से अधिक	5369.50 रुपये व 1,00,000 किलोग्राम से अधिक भार के लिए प्रति 1,000 किलोग्राम के लिए 74.05 रुपये

(II) अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से इतर उड़ानें

10,000 किलोग्राम से अधिक	9.95 रुपए प्रति 1,000 किलोग्राम
10,000 किलोग्राम से अधिक परंतु 20,000 किलोग्राम से अधिक	99.50 रुपए व 10,000 किलोग्राम से अधिक भार के लिए प्रति 1,000 किलोग्राम के लिए 20.20 रुपए।
20,000 किलोग्राम से अधिक	301.30 रुपए व 20,000 किलोग्राम से अधिक भार के लिए प्रति 1,000 किलोग्राम के लिए 40.00 रुपए।

टिप्पणी (i) यह गणना समीपतम 1,000 किलोग्राम के आधार पर की जाएगी।

टिप्पणी (ii) मुख्य नियम अधिसूचना संख्या वी० 26 दिनांक 23-3-1937 द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है।

निम्नलिखित के द्वारा बाद में संशोधन किये गये :—

- (1) अधिसूचना संख्या सांकांति० 808 दिनांक 29-4-63
- (2) अधिसूचना संख्या सांकांति० 1112 दिनांक 7-7-66
- (3) अधिसूचना संख्या सांकांति० 511 दिनांक 31-3-67
- (4) अधिसूचना संख्या सांकांति० 2379 दिनांक 30-9-69
- (5) अधिसूचना संख्या सांकांति० 714 दिनांक 29-4-71
- (6) अधिसूचना संख्या सांकांति० 1233 दिनांक 18-9-72
- (7) अधिसूचना संख्या सांकांति० 48(इ) दिनांक 29-1-77
- (8) अधिसूचना संख्या सांकांति० 883 दिनांक 12-8-80
- (9) अधिसूचना संख्या सांकांति० 191(इ) दिनांक 23-3-81

[काइल संख्या एबी० 11014/2/81-ए]

एस० एकांबरम्, निदेशक

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 20th March, 1982

NOTIFICATION

G.S.R.261(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, were published with the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation, No.GSR 1140 dated the 16th December 1981 at pages 2743-44 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 19th December 1981 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas, the said notification was made available to the public on the 19th December, 1981.

And whereas, the objections or suggestions received from the public have been taken into consideration.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules 1937, namely: //

1. (1) These rules may be called the Aircraft (1st Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on 1st April, 1982.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in Schedule V, for sub-para I "LANDING CHARGE" under paragraph 1, in Section B, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

I. LANDING CHARGES

Total weight of the aircraft	Landing charges for single landing
(i) International flights:	
Not exceeding 10,000 Kgs.	Rs. 18.50 per 1000 Kgs.
Over 10,000 Kgs. but not exceeding 20,000 Kgs.	Rs. 185.00 plus Rs. 27.80 per 1000 Kgs. in excess of 10,000 Kgs.
Over 20,000 Kgs. but not exceeding 50,000 Kgs.	Rs. 463.00 plus Rs. 55.55 per 1000 Kgs. in excess of 20,000 Kgs.
Over 50,000 Kgs. but not exceeding 1,00,000 Kgs.	Rs. 2129.50 plus Rs. 64.80 per 1000 Kgs. in excess of 50,000 Kgs.
Over 1,00,000 Kgs.	Rs. 5369.50 plus Rs. 74.05 per 1000 Kgs. in excess of 1,00,000 Kgs.
(ii) Flights other than International flights:	
Not exceeding 10,000 Kgs.	Rs. 9.95 per 1,000 Kgs.
Over 10,000 Kgs. but not exceeding 20,000 Kgs.	Rs. 99.50 plus Rs. 20.20 per 1,000 Kgs. in excess of 10,000 Kgs.
Exceeding 20,000 Kgs.	Rs. 301.30 plus Rs. 40.00 per 1,000 Kgs. in excess of 20,000 Kgs.

Note (i) Calculation will be made on the basis of nearest 1,000 Kgs.

Note (ii) Principal Rule published vide Notification No. V-26, dated 23-3-1937.

Subsequently amended by:—

- (1) Notification No. GSR 808 dated 29-4-63.
- (2) Notification No. GSR 1112 dated 7-7-66.
- (3) Notification No. GSR 511 dated 31-3-67.
- (4) Notification No. GSR 2379 dated 30-9-69.
- (5) Notification No. GSR 714 dated 29-4-71.
- (6) Notification No. GSR 1233 dated 18-9-72.
- (7) Notification No. GSR 48(E) dated 29-1-77.
- (8) Notification No. GSR 883 dated 12-8-80.
- (9) Notification No. GSR 191 (E) dated 23-3-81.

[File No. Av.11014/2/81-A]

S. EKAMBARAM, Director